(Formerly known as VIBHOR STEEL TUBES (P) LTD.)

CIN: L27109HR2003PLC035091, Regd. Address: Plot No. 2, Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar (Haryana) - 125005 India, Tel No.: 01662-237359, 222710, Email Id: contact@vstlindia.com, Website: www.vstlindia.com

Date: September 03, 2024

VSTL/Sec/AGM/ 2024-25

То,	To,		
Department of Corporate Affairs,	Listing Department		
BSE LIMITED,	National Stock Exchange of India Limited		
P.J Towers, Dalal Street,	Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla		
Mumbai – 400001	Complex Bandra [E], Mumbai – 400051		
BSE Scrip Code: 544124	NSE Symbol: VSTL		

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement- Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, in compliance with Ministry of Corporate Affairs General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) today, intimating that 21st Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, September 26, 2024 at 02:00 p.m. at Banquet Hall, Suncity Mall, Delhi Rd, Industrial Area, Hisar, Haryana-125001.

This will also be posted on the company's website www.vstlindia.com.

This is for your information and records

Thanking you,

Yours faithfully,

For VIBHOR STEEL TUBES LIMITED

Mr. Lovkesh Company Secretary & Compliance Officer Mem No.: A68975

Meili No.. A00975

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS



TATA POWER

(Corporate Contracts Department, 5th Floor Station B) Tata Power, Trombay Thermal Power Station Chembur-Mahul, Mumbai 400074, Maharashtra, India. (Board Line: 022-67175323, Mobile: 7208817950) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following a) Services for ESP overhauling of Trombay Unit 5 during major shutdown (3 Nos)

b) Services for ESP overhauling of Trombay Unit 5 one at a time (3 Nos) prior to shutdown For detail NIT, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. Last date for receipt of request for issue of bid document is 20th September 2024.

L.J. INTERNATIONAL LIMITED CIN: U01131KL1943PLC071569

Regd. Office: New No.56/712, (Old No.27/1032) Panampilly Nagar, Cochin - 682036 Kerala, Tel: 0484 2315312

E-mail: statutory@avtdt.in Website: www.avtbiotech.com

NOTICE OF THE 81STANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the EIGHTY FIRST Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 11.00 A.M. on Thursday, 26th September, 2024 at the Registered Office of the Company at New No.56/712, (Old No.27/1032) Panampilly Nagar, Cochin - 682036, to transact the business as set out in the Notice of AGM. The Company completed the despatch of Annual Report for 2023-24 along with the Notice of the AGM on 31st August, 2024. The Annual Report along with the Notice of the Eighty First AGM is available on the company's website, www.avtbiotech.com and also the Notice of AGM is available on the website of CDSL www.evotingindia.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on 23rd September 2024 Monday (9.00 A.M. IST) and ends on 25th September, 2024, Wednesday (5.00 P.M. IST), after which voting shall not be allowed. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held

by them in both physical and dematerialised form in the paid up equity share capital of the Company as on Thursday, the 19th September, 2024 ('cut-off date'). The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM venue and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Persons who have acquired shares and become members of the Company after despatch of the Notice of the AGM but before the cut-off date may use any of the following:

(i) Use their 8 digits DP ID followed by 8 digits Client ID for National Securities Depository Limited (NSDL) for shares in Demat form and Folio Number for Physical Shares as their Login ID and their PAN as Password. For Central Depository Services (India) Limited (CDSL), use 16 digits Beneficiary ID. (ii) Members who have already registered for remote e-voting can however

use their existing Login ID and password for this purpose. (iii)Others may send an e-mail to investor@cameoindia.com for obtaining Login ID and password for remote e-voting.

The Company has appointed M/s V.Suresh Associates, Practicing Company Secretaries, No. 28 Ganapathy Colony, 3th Street , Teynampet , Chennai - 600 018 as the Scrutinizers to scrutinize the e-voting process and voting during the AGM in a fair and transparent manner.

The Register of members of the Company will remain closed from 20th September, 2024 (Friday) to 26th September, 2024 (Thursday) (both days inclusive) during which period no transfer of shares will be registered.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. The results of the voting will be declared within 3 days from the conclusion

of the 81st Annual General Meeting (AGM). The declared results along with

the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.avtbiotech.com and on the website of CDSL, www.evotingindia.com for information of the shareholders. The results shall also be displayed on the Notice Board of the Registered Office of the Company. For detailed instruction pertaining to e-voting, members may please refer to the section'e-voting instructions' in notice of the Annual General Meeting.

In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for the shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. By Order of the Board

2nd September, 2024

CREATING WEALTH

Privalatha Thomas Chairman **NLC India Limited**

("Navratna" - Government of India Enterprise)

For L.J. International Limited

Regd. Office: No.135, EVR Periyar High Road, Kilpauk, Chennai 600 010 Corporate Office: Block-1, Neyveli - 607 801, Cuddalore District, Tamil Nadu. CIN: L93090TN1956GOI003507. Website: www.nlcindia.in email: investors@nlcindia.in Phone No.: 044-28369139



NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

68" ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS NOTICE is hereby given that the Sixty Eighth (68th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 25" September, 2024 at 15:00 Hours (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with all applicable provisions of Companies Act, 2013 (Act) read with applicable rules thereunder, SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) and in accordance with applicable circulars issued by Ministry of Corporate

Affairs / Securities and Exchange Board of India to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM The Company has sent the Notice of 68th AGM together with the Integrated Annual Report for the Financial Year 2023-24 on 02st September, 2024 through electronic mode whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants / Registrar & Share Transfer Agent, as the case may be.

The above Report & the AGM Notice will also be available in the website of the Company at www.nlcindia.in, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com and in the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, appointed by the Company for providing remote e-voting/e-voting facility at the AGM.

Members may further note that:

i. The business(es) as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through remote e-voting or e-voting facility at

ii. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., Wednesday, 18th September, 2024. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information

iii. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 19th September, 2024 to Wednesday, 25" September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of payment of Final Dividend and AGM of the

iv. The Notice of the AGM, inter-alia includes the process and manner of remote e-voting / e-voting and instructions for participation in the AGM.

The remote e-voting period commences on Saturday, 21st September, 2024 at 9:00 A.M. and ends on Tuesday, 24" September, 2024 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

vi. Any person who acquire shares and becomes a Member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date i.e., Wednesday, 18th September, 2024 may obtain login ID and password by sending a request over email at evoting@nsdl.com mentioning demat account number / folio number, PAN, name and registered address. However, Members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User ID and password for casting their vote through remote e-voting / e-voting at the AGM.

vii. The login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM has been sent along with the Notice of the AGM to Members whose e-mail addresses are registered with the Company. Manner of voting for Members holding shares in physical form, dematerialized form or who have not registered their e-mail address with the Company is provided in the Notice of the AGM, which is also available on the website of the Company.

their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in the Notice of the AGM. Further, Members who have cast vote by remote e-voting prior to the AGM shall not be entitled to cast their vote once again at the AGM.

viii. The facility of e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the AGM but have not already cast

ix. M/s. D. Hanumanta Raju & Co, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner

x. The results shall be declared within two working days of conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company at www.nlcindia.in, NSDL at www.evoting.nsdl.com and by filing with the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company

xi. The Final Dividend on equity shares, if declared, at the AGM will be paid to the Members whose name appears in the Register of Members as on the Record Date i.e. Wednesday, 18th September, 2024. Manner in which the Members can give their mandate for receiving dividend directly in their bank accounts through the Electronic Clearing Service (ECS) or any other means is provided in the Notice of the AGM.

xii. Members who have not registered their e-mail ID are requested to register the same by following the procedure given:

Please visit https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx and follow the In case of Physical holding guidance for submission of KYC documents for registering the email and other details. In case of Demat holding Contact your respective Depositories and follow the process as advised by your DP.

xiii. In case of electronic mode. Members may go through the instructions given in the Notice and in case of any queries / grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to NSDL, Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Email: evoting@nsdl.com, Tel: 022 - 4886 7000.

xiv. All correspondence with regard to the shares of the Company, communication of change of address, bank mandates, (if any) in case of physical shares, may be lodged with the Company or with the Registrar & Share Transfer Agent, Integrated Registry Management Services Private Limited, Unit: NLC India Limited, 2" Floor, "Kences Towers", No.1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T.Nagar, Chennai - 600017, Phone: 044-28140801 to 803; Fax: 044-28142479; Email: einward@integratedindia.in. Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their address / bank account to their respective Depository Participants.

Date: 02.09.2024 CREATING WEALTH FOR WELLBEING

Place: Chennai

for NLC India Limited R. UDHAYASHANKAR **COMPANY SECRETARY**



T.No.e-08/CE/TPC/SE-1/BTPS/EME-16/TGGENCO/2024-25

BTPS - Providing permanent power supply to BTPS colony town ship from BTPS main plant, arranging of street lighting system and providing Diesel Generator sets for extending alternate power supply at various ocation in BTPS colony town ship - Fixing up of agency. at Bhadradri Thermal Power Station, Manuguru, Bhadradri Kothagudem Dist .-- Value of the works: Rs.17,72,00,000/. Scheduled Open & Closing Date: 29.08.2024 at 16:00 Hrs. & 09.10.2024 at 16:00 Hrs.

T.No.e-08/HPC&HP/NSHES/TGGENCO/2024-25

NSHES Supply of Redundant processor modules for Migration of Existing Quantum based HSBY PLC rack to latest version of HSBY PLC Hardware system along with retrofit of Quantum CPU's with new CPU's and commissioning & testing at Nagarjuna Sagar Power House Nalgonda Dist-Value of the works: Rs.99,44,038/-Scheduled Open & Closing Date: 02.09.2024 at 17:00 Hrs. & 21.09.2024 at 14:00 Hrs.

T.No.e-06/CE/CETD/TGGENCO/2024-25

CETD - Providing additional boarding facilities at canteen of CETD and other stations of TGGENCO from 01.09.2024 (or) from the actual date of commencement to 31.03.2025 to the Assistant Engineers and Chemists who are going to be recruited, in addition to other trainees of TGGENCO during the Year 2024-25 at Paloncha, Bhadradri Kothagudem Dist. Value of the works. Rs 31,68,783/- Scheduled Open & Closing Date: 24.08.2024

T.No.e-21/CE/Civil/Thermal/TGGENCO/2024-25

KTPS-VII - Procurement of 3195 RM of different sizes of MS ERW and CI Pipes required for CAM Division at Kothagudem Thermal Power Station Stage VII, Paloncha, Bhadradri Kothagudem Dist. Scheduled Extended

T.No.e-100/CE(O&M)KTPS VII/P12/EM/TGGENCO/2024-25 KTPS-VII Supply of 250kw BAHP Motor at Kothagudem Thermal Power Station Stage VII, Paloncha, Bhadradri Kothagudem Dist. Value of the works. ?.23,00,000/- Scheduled Open & Closing Date: 23.08.2024 at 11:00 Hrs. & 20.09.2024 at 15:30 Hrs.

No.: 3593-PP/CL/ADVT/1/2024-25 Date: 02-09-2024

PUBLIC NOTICE

Surrender of Investment Adviser registration by Karma Capital Advisors Private Limited

Karma Capital Advisors Private Limited (INA000017000) is registered with SEBI under SEBI (Investment Advisors) Regulations, 2013 as an Investment Adviser.

Karma Capital Advisors Private Limited is surrendering the SEBI registration number. INA000017000 and BSE IA Enlistment number 1853. In view of the same, any aggrieved party may make any representation against the surrender before SEBI at https://scores.sebi.gov.in or https://smartodr.in/login.

Investment Adviser Name: Karma Capital Advisors Private Limited

Registered Office Address: Floor 12U, Suite 1, Remi Commercio Off Veera Desai Road, Andheri (West) Mumbai 400053, **CIN:** U67190MH2004PTC148102

> **SEBI Registration Number:** INA000017000 Category of Intermediary: Investment Adviser Email ID: shardul.singh@karmacapital.co.in

Place: Mumbai Date: September 02, 2024 For Karma Capital Advisors Private Limited

Authorised Signatory

DSJ Keep Learning Limited (Formerly Known as DSJ Communications Limited) CIN: L80100MH1989PLC054329

Regd. Off.: 419-A, Arun Chambers, 4th Floor, Next to AC Market, Tardeo, Mumbai - 400034 India Tel: 022 40023127, E-mail: compliance@dsjkeeplearning.com, Website: dsjkeeplearning.com Notice to Member-Information regarding 34th Annual General Meeting to be held through

Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) The Members are hereby informed that the forthcoming 34th (Thirty-Fourth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DSJ Keep Learning Limited ("the Company") will be held on Monday, 30th September 2024 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") pursuant to the General Circular numbers 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, 21/2021 dated 14th December, 2021, 2/2022 dated 05th May, 2022, 10/2022 dated 28th December, 2022 and 09/2023 dated 25th September, 2023 and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and the provisions of Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without the physical presence of members at a common venue. In compliance with the aforesaid Circulars, Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of 34th AGM which will be e-mailed separately

Notice and the Annual Report for the financial year ended 31st March 2024 and other documents required to be attached thereto (Collectively referred as "Annual Report") will be sent electronically to those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company/Depositary Participants(s)/Registrar and Share Transfer Agent. The copy of the Notice along with the Annual Report will also be made available on the website of the Company viz., dsjkeeplearning.com and on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia. com and on the Website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com

MANNER OF REGISTERING/UPDATING EMAIL ADDRESS FOR RECEIVING THE NOTICE OF AGM AND ANNUAL REPORT: In line with the Circulars issued by MCA and SEBI, members are advised to update their Email IDs in order to receive electronic copies

of Annual Report/login credentials, in the manner mentioned below, since no physical copies of Annual report will be dispatched to any

MEMBERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL MODE Members holding shares in physical mode can update their email address by submitting a duly filled up form ISR-1 pursuant to SEBI Circular No SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD 1/P/CIR/2023/37 dated 16th March, 2023 to the Company/Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e., Link Intime India Private Limited. The aforesaid forms can be downloaded from website of Company and RTA at https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC/index.html MEMBERS HOLDING SHARES IN DEMATERIALISED MODE Members who hold shares in dematerialised mode and have not vet updated their email addresses are requested to register/update their email addresses with the Depositary Participant (s) ("DPs") by following the procedure prescribed by the DPs.

The Company and RTA shall co-ordinate with CDSL and provide login credentials for e-voting to the above-mentioned members, subject to the receipt of the required documents and information from the members Further upon receipt of e-mail request from the Members of the Company on the Company's investor id i.e., compliance@ dsjkeeplearning.com for Notice of AGM and Annual Report. The Company shall arrange to provide the same to the Member.

PARTICIPATION AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING): Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM. The instructions for joining/participating in the AGM and the instructions of e-voting (before and during the AGM) will be provided in the Notice of AGM and the members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

The Company has entered into agreement with CDSL, authorized e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ("remote e-voting") to enable the members to exercise their right to vote on the resolution proposed to be passed at the AGM as well as for the members who are present at the AGM through VC//OAVM facility and wish to cast their vote during the AGM, through e-voting system ("e-voting"), if the members have not already casted their vote.

The manner of 'remote e-voting and 'e-voting' during the AGM, for members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in detailed in the Notice of the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

> For DSJ Keep Learning Limited (Formerly known as DSJ Communications Limited)

Jaiprakash Gangwani Company Secretary & Compliance Officer (ACS 55760)

By order of the Board of Directors



VIBHOR STEEL TUBES LIMITED (Formerly known as VIBHOR STEEL TUBES (P) LTD.)

Regd. Address: Plot No. 2, Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar (Haryana)- 125005 India, CIN: L27109HR2003PLC035091, Tel No.: 01662-237359, 222710, Email Id: contact@vstlindia.com, Website: www.vstlindia.com NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING. E -VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended, the notice is hereby

The 21st Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Thursday 26th September 2024 at 2.00 P.M. IST at Banquet Hall, Suncity Mall, Delhi Rd, Industrial Area,

In compliance with the applicable SEBI and MCA circulars the Notice convening the AGM along with Annual Report for the year ended 31st March 2024 has been sent to all the members whose e-mail address are registered with the Company / Depository Participant(s). The dispatch of Notice and Annual Report is completed on Monday, 2nd September 2024. The afore mentioned documents will also be available on the Company's website at https://

www.vstlindia.com/vstl-india.php the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited a www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com Members holding shares as on the cut-off date i.e., Thursday 19th September 2024 may cast their vote electronically on the Ordinary/ Special businesses as set out in the Notice of the 21st AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote E-Voting") and through poll papers at the AGM

i. The Ordinary / Special businesses set out in the Notice of 21st AGM may be transacted through voting by electronic means.

i. The remote e-voting shall commence on Monday, 23rd September 2024 at 09.00 a.m. ii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 25thSeptember 2024 at 5.00 p.m.

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, 19th September 2024. v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the 21st AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday 19th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a

request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or cs@vstlindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote vi. Members may note that a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member

shall not be allowed to change it subsequently. b) The facility for voting through polling papers shall be made available at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting facility may also attend the

d) A person whose name is recorded in the Register of Members and List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through

vi. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Ketan Ravindra Shirwadkar of M/s KRS AND CO. Practicing Company Secretaries, Thane, (Mem No. A37829 and COP No. 15386) as scrutinizer to scrutinize the e-voting/ poll process in a fair and transparent

vii. The results of voting shall be announced by the Company on its website at www.vstlindia.com and also will be informed to the Stock Exchange viz, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and shall also be uploaded on the CDSL e-voting portal. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Help Section of https:// www.evotingindia.com or call on helpdesk no. 18002005533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafattal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai

400013, Phone no. 18002005533, Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com who will

address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also

write on the e-mail ID of the Companycs@vstlindia.com. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2024 to Thursday, 26th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 21st Annual General Meeting for the year ended 31st March, 2024.

MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELI HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER For Vibhor Steel Tubes Limited

Mr. Vijay Kaushik

Date: September 03, 2024

Place: Hisar

DIN: 02249672



Place: Mumbai

Date: 02nd September 2024

RUCHIRA PAPERS LIMITED

Registered Office: Trilokpur Road, Kala Amb, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh - 173030 CIN: L21012HP1980PLC004336; Phone No.: 91-8053800897 E-mail Address: cs@ruchirapapers.com; Website: www.ruchirapapers.com

Notice of 44THAnnual General Meeting and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given that the 44TH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 24th September 2024 at 12:00PM at Black Mango Hotel, Nahan Road, Kala Amb, District Sirmaur, Himachal Pradesh-173030 to transact the business as set out in the AGM Notice dated 9th August 2024.

The company has sent the notice for the 44th AGM together with the Annual Report for F.Y. 2023-24 on 2nd September 2024 through electronic mode to members whose Email IDs are registered with the Company or with Depository Participants on 23rd August 2024. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.ruchirapapers.com and also at the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.cam and www. nseindia.com, respectively, and can be downloaded therefrom. The Notice of AGM is also available on the website of Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with relevant Rules thereunder and

Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be passed at the 44th AGM through remote e-voting services provided by LIIPL. Members are requested to follow the instructions comprising manner of e-voting which has been given in the Notice of 44th AGM. Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM. The facility of remote e-voting will be provided by LIIPL.

The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote e-voting or poll at the AGM will be Tuesday, 17th September 2024. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cutoff date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting. The remote e-voting period begins on Friday, 20th September 2024 (9.00 A.M) and ends on Monday, 23rd September 2024 (5.00 P.M). Remote evoting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company shall also provide facility for voting through polling at the AGM to those members who have not cast their vote through e-voting.The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM. The manner of remote e-voting by the Members holding shares in physical mode or dematerialized

mode and for the Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch

of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 17th September 2024, may follow the same instructions for remote e-votingas mentioned in the Notice of AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM. NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations

that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Wednesday, 18th September 2024 to Tuesday, 24th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. The Board has fixed Tuesday, 17th day of September 2024 as record date for the purpose of determining the members entitled to receive final dividend for the financial year 2023-24. Provided, if the dividend as recommended by the Board of Directors is approved at the AGM, payment of such dividend will be made on or after 7th October 2024.

Manner of registering/updating email addresses: (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses

Passport) in support of the address of the Member.

Date: 02.09.2024

with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at cs@ruchirapapers.com – (i) a-signed request letter mentioning their name, folio no, and address;

(ii) self-attested copy of the PAN Card and (iii) self-attested copy of any document (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card,

(b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with their Depositary Participant(s). After due verification, the Company will forward the procedure for obtaining their login credentials to

their registered email addresses. In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently

Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in,

under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 –4918 6000. For Ruchira Papers Limited Place: Kala- Amb

Iqbal Singh Place: Mumbai (Company Secretary & Compliance Officer) Date: 02nd September, 2024

glenmark LIFE SCIENCES

Glenmark Life Sciences Limited Registered Office: Plot No. 170-172, Chandramouli Industrial Estate,

Mohol Bazarpeth, Solapur-413 213, India. Corporate Office: 4th Floor, OIA House, 470, Cardinal Gracious Road, Andheri (E) Mumbai-400 099, India. Phone No.: +91 22 68297979;

CIN: L74900PN2011PLC139963; Website: www.glenmarklifesciences.com

and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and the

Email: complianceofficer@clenmarklifesciences.com Thirteenth Annual General Meeting (AGM) This notice is being published in compliance with the provisions of various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

provisions of the applicable laws, with regard to the Annual General Meeting (AGM) and E-voting.

We hereby notify as follows: The 13th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), on Wednesday, 25th September, 2024 at 3.00 p.m. to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 (i) will be sent to all shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) by email and (ii) will also be uploaded on the website of the Company at www.glenmarklifesciences.com, websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). Manner of casting vote(s) through e-voting:

a. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM

through e-voting system. b. The manner of voting remotely by shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided

also be made available on the website of the Company at www.glenmarklifesciences.com c. In case the shareholders have not registered their email addresses, on successful registration of email address as per the manner specified below an email containing the login credentials for casting votes through e-voting shall be made

in the Notice of the AGM to the shareholders. The details will

available to the shareholders. 4. Manner of registering/updating email addresses:

a. Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants.

b. Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email address with the company are requested to register/ update their email address by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFin Technologies Limited (KFIN), Selenium Tower B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 008.

For Glenmark Life Sciences Limited

Rudalf Corriea Company Secretary & Compliance Officer

financialexp.epapr.in Chandigarh

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

निविदा सूचना

निविदा संख्याः एनएफएल / पीएन / एसपीएक्स / 2023 / 336 दिनांकः 03.09.2024 निम्नलिखित के लिए खुली निविदा के आधार पर दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन बोलियां GeM पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं:

1) विषय विवरण: HE-2B के प्रथम चरण के कुल कंडेन्सर का पूर्ण समाधान जिसमें शैल, लाइनर सहित सभी कम्पेनियन फ्लॅंज शाँगेल हैं।

3) अनुमानित लागतः र 1.80 करोड

ईएमडी राशिः ₹ 1.00 लाख

4) निविदा प्रस्तत करने और खोलने की अंतिम तिथि और समय: GeM पोर्टल बोली अनुसूची के अनुसार

अधिक जानकारी और कार्य के दायरे आदि के लिए कुपया वेबसाइट https://www.nationalfertilizers.com, https://gem.gov.in देखें। इस निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइटों को नियमित रूप उप महाप्रबंधक (सामग्री)



-िमिविदा मोड के मान्यम से दो पैकेट निविदा प्रणाली में ग्रुप । और ग्रुप ।। में एरिया-। में कॉनकॉर के विभिन्न टर्मिनलों पर o फीट, 22 फीट, 40 फीट और 45 फीट लंबाई के कंटेनरों की हैंडलिंग के लिए 45 टी x 5 रहेवाई की क्षमता के 6 लोडेड पैच टेकरों के संवालन और रखरखाय के लिए प्रोफेशनल संवाए प्रदान करने के लिए ऑनलड़न ई-बोलिया आर्मीडेट की जाती है। निविदा सं: CON/A-I/TECH/O&M 6 RSTs/2024 ह शम

निविद्या की गई प्रमात्रा मुमानित लागत 86.12.30.925 /- (#VT HIBH) परोहर राशि (ईएमडी) e5,00,000 /- (कॉनकॉर को ऑनलाइन भूगतान गटवे के माध्यम से) ११,000/- कॉनकॉर को जॉनलाइन मुगतान गेटवे के माध्यम से स्तावंज की लागत #3,540 / - ऑनलाइन भूगतान के माध्यम से (सभी कर सहित) नेविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय) नेविदा विज्ञी (ऑनलाइन) की तारीख 03.09.2024 अपराहन 15:00 बजे से 17:09.2024 अपराहन 17:00 बजे तक 18.09.2024 को जपराहन 13:00 बजे तक योली जमा करने की तारीख और समय 18.09.2024 को अध्यतहरू 15:00 बजे

पत्रता मानदंग्र और अन्य विवरमाँ हेतु कृपमा www.concorindia.com मा www.eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉम जॉन करें। बोलीदालाओं से अनुरोध है कि वे नियमित सप से वेबसायूटी की देखन क्षे । कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । संपूर् समूह महाप्रबंधक / तकनीकी / एरिका-वेवरण हेत् www.tenderwizard.com/CCIL पर सीगर्जीन करें।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING, MINISTRY OF RAILWAYS)
NSIC New NDBP Building, 3rd Floor, Okhia Indi. Estate (Opp. NSIC Okhia Metro Station), New Delhi-110020 ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर 125 केवीए पीएनजी संचालित जेनरेटर सेट की आपूर्ति के लिए एकल पैकेट प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा संख्याः CON/CO/EP/ELECT/125 KVA/PNG/GEN/2024

कॉनकॉर भवन, सी-3, अपोलो अस्पताल के सामने, मधुरा रोड, नई दिल्ली-110076 में कार्य का नाम 125 KVA PNG संचालित जनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग रु. 16,97,480/- (सभी को शामिल करते हुए) अनुमानित लागत

अनुबंध की अवधि रु. 33,950/- (केवल ई-भूगतान के माध्यम से)। बयाना राशि जमा निविदा दस्तावेज की लागत (वापसी योग्य नहीं) शुन्य निविदा प्रसंस्करण शुक्क (वापसी योग्य नहीं) | रु. 1,002/- (ई-भुगतान के माध्यम से सभी कर और शुक्क सहित) निविद्या की बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) 03.09.2024 (11:30 बजे) से 23.09.2024 (17:00 बजे तक) निविदा जमा करने की तिथि और समय 24.09.2024 17:00 बजे तक (केवल ई-निविदा मोड)

25.09.2024 11:30 बजे।

वितीय पाउता मानदंड, कार्य की समान प्रकृति के संबंध में अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर पलब्ध विस्तृत निवेद सदाना देखें. किस पूर्व निवेदा दस्तविज केवल वेदसाइट www.tenderwizard.com/CCIL. से हाउनली किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा का शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र प्रेस विद्यापन जारी नहीं किया आएगा। महाप्रबंधक/परियोजनाएं. फोन नं.: 011-41222500

निविदा खोलने की तिथि और समय

जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सीआईएन: L65923UP2012PLC051433 पंजीकृत कार्यालयः १९वीं के.एम. हापुर – बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी,

जिला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203408 काँपाँरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 12, संक्टर बी-1, स्थानीय शाँपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत क्ल, नई दिल्ली - 110 070

टेलीफोन नं: 011-40322100; ई-मेल आईबी: cs ipifd@indalgroup.com; वेबसाइट: www.jpifcl.com पब्लिक नोटिस - 12वीं वार्षिक आम बैठक

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी'

को 12वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएबीएम') की सुविधा के माध्यम से बिना सदस्यों की सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023, सामान्य परिपत्र 2 / 2022 दिनांक 5 मई 2022 और 19 / 2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 और सामान्य परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह की छूट भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या संबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक ७ अक्टूबर 2023 ('सेबी परिपन्न') के माध्यम से भी प्रदान की है।

सदस्यमण यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की मो–ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए, एजीएम के नोटिस जिसमें एजीएम और ई-बोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इस्टा दोनों) में भाग लेने का तरीका और वितीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / ढिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं और यह कंपनी की वेबसाइट www.jpifcl.com और स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइट जैसे नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com प

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और इसका विवरण ई-वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इंस्टा दोनों) में माग लेने के तरीके के साथ कंपनी द्वारा एजीएम व नोटिस में प्रदान किया जाएगा। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में माग लेने वाले सदस्यों कं अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा और इसलिए सदस्यों से अनरोध

किया जाता है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें: ये शेयर धारक सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट भौतिक रूप में शेयर घारक नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपना ईमेल पता कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ईमेल

आईडी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल अनुरोध भेजकर पंजीकृत / अपनेत करें, साथ ही ईमेल पता, मोबाइल नंबर, रव-सत्यापित पैन कॉपी और अपन ईमेल पता पंजीकृत करने और वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश प्राप्त करने के लिए शेयर प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्केन की गई प्रति भी मेज दें। अपने संबंधित डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमेंट खाते ने डीमैट शेयर विवरण पंजीकृत करें / अपबेट करें

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और

यह एमसीए परिपन्न(जों) और सेबी परिपन्न(जों) के अनुपालन में हैं। कृते जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेर

घनश्याम दास सिंघल

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02/09/2024

प्रबंध निदेशक

वीवो कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड (सीआईएन : L72900DL2012PLC230709) पंजीकृत कार्यालयः 315, तृतीय तल, एचबी ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली - 110034, ईमेल : sanjay.mittal@vivo.ooo, वेबसाइट : www.vivo.ooo, दूरभाष : 91-7838651690

13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई-वोटिंग जानकारी

तथा बही समापन की सूचना

रतदद्वारा यह सुचना दी जाती है कि कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य

ऑडियो—विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को अप. 02:00 बजे (आईएसटी) पर, 13वीं एजीएम की सचना में निर्धारितानुसार, व्यापार का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 और 03/2022 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 05 मई 2022 के साथ पढ़ें और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्गत अन्य लाग परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरपी/पी/2020/79 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार, 13वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 02 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.vivo.ooo पर और स्टॉक एक्सचेंज की

वेबसाइट अर्थात् www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आम बैठक पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वीसी /ओडब्ल्यूवीएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से वोट करने और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराकर संतुष्ट है। इस संबंध में प्रक्रिया / अनुदेश एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए हैं। कंपनी के सदस्य, जो कट ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर 2024 के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट करने तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने तथा एजीएम में वोट डालने के पात्र हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथ के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार 23 सितंबर 2024 (सुबह 09.00 बजे) से शुरू होगी और बुधवार 25 सितंबर, 2024 (शाम 05.00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के जरिए किसी प्रस्ताव पर वोट कर देते हैं तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने

के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार 19 सितंबर 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग

कर सकते हैं। ई-वोटिंग प्रक्रिया को एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से जांचने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री संजीव डबास को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।

जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पछना चाहते हैं. वे 23 सितंबर, 2024 को या इससे पहले शेयरधारकों के नाम और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, पैन/अन्य पहचान की स्व-सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण के साथ अपना नाम, डीमैट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी को अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से atcs@vivo.oooon पर एक

अनुरोध भेजकर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें। ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका

को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 से नामित ईमेल आईडी : evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते वीवो कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड

दिनाँक : 03-09-2024 संजय मित्तल (प्रबंध निदेशक) स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01710260

Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance. Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

CHANDIGARH-SECTOR 9C - 23660001998303 24660000096785

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form. which is made available before the commencement of auction.

Manager AU Small Finance Bank Limited



सीआईएनः L74899DL1992PLC050142 पंजीकृत कार्यालयः ८२०, अंतरिक्ष भवन, २२, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 टेलीफोनः (011) — 011—41069500, 43509305, 43513857 फैक्सः 011—23738974 ई-मेलः secretarial@replurbanplanners.com, वेबसाइटः www.repl.global 26 सितंबर, 2024 को वीडियो कॉन्फेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओभीएएम) के

माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3:00 बजे आईएसटी पर आयोजित की जाएगी। परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी दिनांक 25 सितंबर, 2023 का सं. 09 / 2023 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई, 2022, 05 जनवरी 2023 और अक्टूबर 07, 2023 ('सेबी परिपत्र') (सेबी परिपत्र) 32वीं वार्षिक आम बैठक बूलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को

परा करने के लिए की गई है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने 32वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी हैं जिनके ईमेल पते कंपनीध्रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''रजिस्ट्रार'') और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(एस) (''डीपीएस'') के पास पंजीकृत हैं। 32वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.repl.global और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित मानी जाती है जो 820, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001 पर स्थित है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

यरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसार पर दूर से ही अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसार,

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार 20 सितंबर 2024 से गरुवार 26 सितंबर 2024 तक बंद रहेंगी। बोर्ड के आदेश से रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए

हस्ता / -स्थानः नई दिल्ली रहस बिहारी पांडा कंपनी सचिव

दिनांकः ०२ सितंबर २०२४



इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सरिता विहार. दिल्ली-मचुरा रोड. गई दिल्ली 110 076 (मारत) निनमित पहचान संख्या : L24232DL 1988PLC030958 दूरमाथ : 91 11 26925858, 26925801, फैक्स : 91 11 26823629 ति: imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट: https://www.apollohospitals.com/del

36वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

वार्षिक आम बैठक

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 10:45 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञाल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 5 मई, 2022, 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्रों के अनुसार, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 7 अक्टबर, 2023 के परिपन्नों के साथ, सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार एजीएम केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। साथ ही, उपरोक्त परिपन्नों के अनुसार, 38वीं एजीएम की सूचना (जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है) पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के साथ, केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत है। ईमेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का प्रेषण 31 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सुचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता को ऊपर उल्लिखित सेबी परिपत्र के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.apollohospitals.com/delhi और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108, संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम २०, तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियम 44, (सूचीबद्धता विनियम) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (SS2) के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है तथा ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से कारोबार का संचालन किया जा सकता है। एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ई-वोटिंग सुविधा का विवरण

- i. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे) से खुलेगी और सोमवार, 23 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी।
- ii. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 17 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- iii. एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे के बाद अक्षम कर दी जाएगी और सदस्यों को उक्त समय के बाद वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
- iv. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी (वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने का विस्तृत तरीका एजीएम नोटिस के नोट्स में उल्लिखित किया गया है)। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक में फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। फंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकें से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्री
- बलदेव सिंह कश्तवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफसीएस 3616 और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस संख्या 3169) को आगामी एजीएम के लिए स्क्रुटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। vi, किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड
- अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्लर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।

इसके साथ ही यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के

दिनांक: 31-08-2024

स्थान : नई दिल्ली

प्रावधानों तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम तथा लाभांश भूगतान के उद्देश्य से शनिवार, 14 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

एवीपी – कॉर्पोरेट मामले और विधि (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)



हम, डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड (सेबी पंजीकरण संख्याः INZ000179035) एतद्वार आम जनता, निवेशकों और अन्य हितधारकों को सूचित करते हैं कि, हमने एक्सचेंज की मंजूरी वं अधीन, अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण, एनएसई के साथ पंजीकृत अधिकृत व्यक्ति "फिनक्सपर्ट ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" का पंजीकरण समाप्त कर दिया है। एपी का विवरण इस प्रकार है:

अधिकृत व्यक्ति का नाम	एनएसई एपी पंजीकरण संख्या	्पता	पैन
फ़िनक्सपर्ट ट्रेडिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	AP0065000363	जी—69, सेक्टर 63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 201301,संपर्क नंबर — 8851610130 ईमेल आईडीः : finxpertservices21@gmail.com	AAFCF9431L

गम जनता से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उक्त एपी अब किसी भी क्षमता में डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड से जुड़ा नहीं है और उक्त एपी के साथ कोई लेन–देन नहीं करना चाहिए। फ़िनक्सपर्ट ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई भी लेन—देन जनता ⁄ निवेशकों के अपने जोखिम पर होगा। उपरोक्त आदेश निवेशकों और आम जनता के हित में जारी किया गया है।

डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के लिए

(शिव नारायण डागा) दिनांक 02.09.2024 प्रबंध निदेशक

optiemus

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड सीआईएन: L64200DL 1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालयः के-20, द्वितीय तल, लाजपत नगर - II, नई दिल्ली -110024 कॉर्पोरेट कार्यालयः डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307

वेबसाइटः www.optiemus.com, ईमेलः info@optiemus.com, फोन : 011-29840906 कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

रतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 के संबह 11:00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम,कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी क्रमशः 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 और 10/2022, उसके बाद परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा अक्टूबर, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी –पीओडी –2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 और एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी अन्य सभी लागु परिपत्रों और अधिसूचनाओं के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के

लिए से आयोजित की जाएगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.optiemus.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से

अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, ९९, मदनगीर, नई दिल्ली-110062, टेलीफोनः 011-29961281-83, ई-मेलः beetal@beetalfinancial.com पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक https://www.optiemus.com/ shareregistration.html पर उपलब्ध विधिवत दायर और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके अपना ई-मेल पता और मोबाइल शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय पर दर से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूर से वोट करने

एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में

का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा, जो कंपनी की वेबसाइट www.optiemus.com पर भी

31वीं एजीएम की सूचना शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई—मेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार शीघ्र ही भेजी बोर्ड के आदेशानुसार ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

विकास चंद्रा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



दिनांकः 02 सितंबर, 2024

स्थानः नोएडा (यू.पी.)

The most special way to say you come

आर्चीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050

सीआईएनः L36999HR1990PLC041175,

वेबः www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in ईमेलः archies@archiesonline.com, टेलीफोनः +91 124 4966666 34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि आर्चीज लिमिटेड (सीआईएन **L36999HR1990PLC041175**) व 34वीं (चौंतीसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को अपराह 03:00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना, मतदान (दूरस्थ ई-वोटिंग सहित) से संबंधित विस्तृत निर्देशों और सूचनाओं के साथ उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिन्होंने इसकी भौतिक प्रतियां अपने पंजीकृत पते पर और अन्य सभी सदस्यों को इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से मांगी हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in पर भी उपलब्ध है। कंपनी ने 02 सितंबर, 2024 को एजीएम

की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने का काम पूरा कर लिया है। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 व अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना 02 सितंबर, 2024 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.archiesinvestors.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट में रखे गए हैं तो वे डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी लिंक इनटाइम इंडिया

पंजीकृत / अपडेट करें। ईमेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य enotices@linkintime.co.in या cs@archiesonline.com पर लिख सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से सिस्टम का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम से मतदान की (दूरस्थ ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान कर रही है ।

प्राइवेट लिमिटेड (https://instavote.linkintime.co.in) के साथ अपने ईमेल पते

कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम स्थल पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (https://instavote.linkintime.co.in) की सेवाएँ ली हैं।

- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. ई-मेल के माध्यम से एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट-2023-24 की सचना भेजने की अंतिम तिथिः
- 2. कंपनी की 34वीं एजीएम की सचना में उल्लिखित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान और एजीएम स्थल पर मतदान के माध्यम से निपटाए जाएंगे:
- रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 21 सितंबर 2024 (09:00 पूर्वाह्न आईएसटी) से शुरू होगी और सोमवार 23 सितंबर 2024 (05:00 अपराह आईएसटी) पर समाप्त होगी। इसके बाद, ई-वोटिंग मॉड्यूल
- रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 17 सितंबर, 2024 है:
- वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के पास रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगाः
- वह व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेयर रखता है, वह enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने
- वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट देने का अधिकार नहीं होगाः

एजीएम में भाग लेने और वोट देने का हकदार सदस्य खुद के बजाय मतदान में भाग लेने और

वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी होने के लिए, प्रॉक्सी पर हस्ताक्षर और मुहर लगनी चाहिए तथा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग वे

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जिसमें फोलियो नंबर और शेयरधारक का नाम, पैन और आधार की स्व-सत्यापित प्रति, cs@archiesonline.com पर कंपनी को ईमेल द्वारा भेजकर वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ एजीएम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

022 — 49186000 पर फोन कर सकते हैं —

अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता

पुस्तिका देख सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या हमें टेलीफोनः

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से बुधवार, 18 सितंबर, | 2024 से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। ई—वोटिंग और परिणामों की घोषणा के लिए संवीक्षक कंपनी ने मेसर्स एनएसपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के मालिक श्री नवीन श्री पांडे, प्रैक्टिसिंग कंपनी

सेक्रेटरी (एफसीएस नंबर 9028 और सीपी नंबर 10937) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से और लागू कानूनों

के अनुसार मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। प्रस्तावों पर परिणाम कंपनी की बैठक के समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in और सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे और बैठक के समापन से 48 घंटे के भीतर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे।

बैंक खाते का परा विवरण अपडेट करें और यदि वे भौतिक रूप से रखे गए हैं तो कंपनी के आरटीए के साथ या cs@archiesonline.com पर सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन की स्व-सत्यापित प्रति और रद्द किए गए चेक लीफ का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र की प्रति के शेयरधारकों को एक ही बार में अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत

नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाना होगा।

करने की सुविधा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को अपने ईमेल आईडी, मोबाइल

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं तो वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपने

यहाँ क्लिक https://linkintime.co.in/emailreg/email register-html करें: बोर्ड के आदेश से आर्चीज लिमिटेड के लिए हस्ता/-(जगदीश मूलचंदानी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden,

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

DEHRA DUN - 22660000952349 23660000767975 23660000890163

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form which is made available before the commencement of auction

Manager AU Small Finance Bank Limited

विभार स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (पूर्व में विभोर स्टील ट्यूब्स (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएनः L27109HR2003PLC035091, दूरभाष संख्याः 01662–237359, 222710, वेबसाइटः www.vstlindia.com

ई—वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों

1. कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') गुरुवार 26 सितंबर 2024 को दोपहर 2.00 बजे बैंक्वेट हॉल, सनसिटी मॉल. दिल्ली रोड. औद्योगिक क्षेत्र. हिसार. हरियाणा—125001 में आयोजित की जाएगी।

प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण सोमवार, 2 सितंबर 2024 को पूरा हो गया है। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.vstlindia-com/vstl-india.php पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से और एजीएम में मत पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। 4. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. 21वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित साधारण/विशेष कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से 2. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी।

5. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और 21वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख यानी गुरुवार 19 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण करता है, helpdesk-evoting@cdslindia.com या cs@vstlindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले

कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने

बी) एजीएम में पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सी) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और डी) केवल एक व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 19 सितंबर 2024 को सदस्यों के रजिस्टर

के माध्यम से एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स केआरएस एंड कंपनी के श्री केतन रवींद्र शिरवाडकर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे, (मेम नंबर ए 37829 और सीओपी नंबर 15386) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से

ई-वोटिंग/मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त 8. मतदान के नतीजे कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.vstlindia.com पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सचित किया

9•. प्रश्नों के मामले में, सदस्य https://www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग में सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या हेल्पडेस्क नंबर 18002005533 पर कॉल कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयुचरक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पर्व), मंबई 400013, फोन नंबर 18002005533, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी की ई-मेल आईडी cs@vstlindia.com पर भी लिख सकते हैं।

विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए

दिनांकः 03 सितंबर, 2024

alletechnologies

ALL E TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave, Pitampura Delhi-110034, India

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of All e Technologies Limited is scheduled to be held on Friday, September 27, 2024 at 4:00 PM (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC), in Compliance with General Circular latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with earlier circular and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, ("SEBI Circulars")

Completion of dispatch of AGM Notice & Annual Report For FY'24: In compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the AGM Notice and the Annual Report for FY'24 on Monday, September 02, 2024 via. e-mail, to those Members whose e-mail address was registered with the Company/Registrar and

Share Transfer Agent/Depository Participant(s) The AGM Notice and Annual Report are also available on the Company's Website at https://www.alletec.com/investors-alletec, on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and also on the website of the

https://www.nseindia.com/. E-voting: In compliance with Section 108 of the Act read with the Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standard - 2 on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members have been provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in AGM Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 20, 2024 ('Cut-off date') will be entitled to cast their vote by remote evoting or e-voting during the AGM. Participation of members through VC will be

voting module shall be disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote. Members who have exercised their right to vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again Dividend: The Board of Directors at its meeting held on May 20, 2024 has recommended a final dividend of ₹ 1 per Equity Share of the face value of ₹ 10/-each (i.e. 10% on the face value of Equity Share). The Record Date for the purpose of

24th AGM, Members may please refer to Notes of the AGM Notice for TDS-related instructions on dividend payment. Members who have not registered/updated their e-mail address and/or bank account

Members holding share in the Physical form

Private Limited

Depository Participant (DP)

Skyline Financial Services

Through the Company RTA i.e.

All E Technologies Limited

September 02, 2024 Ohio, U.S.A.

Chandigarh

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their

(हरियाणा)— 125005 भारत, ईमेल आईडीः contact@vstlindia.com,

21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना,

2. लागू सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के

3. कट—ऑफ तिथि अर्थात गुरुवार 19 सितंबर 2024 को शेयर रखने वाले सदस्य, 21वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण / विशेष कारोबार पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से सेंट्रल डिपॉजिटरी

3. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख गुरुवार, 19

ए) वोटिंग के लिए उपरोक्त तारीख और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय

और लाभकारी मालिकों की सूची में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ पोलिंग पेपर

जाएगा और सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 91 और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन. 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 21वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनार्थ कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य को स्वयं के स्थान पर

श्री विजय कौशिक

Tel.: +91-120-3000 300, www.alletec.com

and the applicable provision of the Companies Act, 2013 ('the ACT') read with the Rules made there under, to transact the business set forth in the Notice convening the

Stock Exchange i.e. The National Stock Exchange of India Limited at

reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Act The voting right of the Members shall be in proportion to their shareholding to the paidup equity share capital of the Company as on the Cut off date. Once a vote is cast by a Member, she/he will not be able to change it subsequently. Members can opt for only one mode of voting i.e. through remote e-voting or e-voting at the AGM. If a Member casts the votes by both modes then the voting done through remote e-voting shall prevail. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM and access to the AGM is outlined in Notes to the AGM Notice.

Payment of Final Dividend is fixed as Friday, September 20, 2024, if approved at the

details are requested to register/update the same in the records of the Company/Depository, as case may be, in the following manner: Members holding share in the Demat form Through their respective

www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre – Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in. By order of the Board of Directors

www.readwhere.com

प्रिय रंजन स्थानः दिल्ली

डीनः 00016718

24660000338812 |

पंजीकृत पताः प्लॉट नंबर 2, औद्योगिक विकास कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार

के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह सूचना दी जाती है किः साथ एजीएम बुलाने की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी

से ही पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता

भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को सदस्य होने की

डीआईएन: 02249672

(Formerly: All e Technologies Pvt. Ltd.) CIN: U72200DL2000PLC106331

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

24th AGM (AGM Notice)

The Remote e-voting period begins on Tuesday, September 24, 2024 (9:00 AM IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 (5:00 PM IST). Thereafter, the remote e-

For any queries relating to e-voting, Members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual available in the download section of

> Ajay Mian **Managing Director** DIN No. 00170270

दिनांकः 02.09.2024